

Riba Textiles Limited

(GOVT. RECOGNISED EXPORT HOUSE)

REGD. OFFICE : DD-14, NEHRU ENCLAVE, OPP. KALKAJI POST OFFICE, NEW DELHI-110019 TELEPHONE : (011).26236986

FAX : (011) 26465227 CIN NO.: L18101DL1989PLC034528

Date: 07.02.2022

To,
Corporate Relation Department **BSE Ltd.**25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street Mumbai -400001

Scrip Code: 531952/Equity

Dear Sir(s)

Sub: Submission of newspaper Publication Un-audited Financial Results in Compliance with SEBI (Listing Obligations and Requirements) Regulations, 2015.

In compliance with Regulation 47 of Listing SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Please find enclosed herewith Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the quarter ended on 31st December, 2021, published in "The Financial Express", English Newspaper & in "Jansatta" in Hindi Newspaper on 05th February, 2022.

We request you to please take the above on your record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Riba Textiles Limited

(Neha Dubey)

Company Secretary Compliance Officer

M. No.: A46655

Encl.: As above

■IndiaShelter इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : छठा तल, प्लॉट-15, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा-122 002 शाखा कार्यालय : बी-3/10, डीके टावर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010, उत्तर प्रदेश

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं युनरनिर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन सूचना एतदद्वारा सुबना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदारों ने इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएसएफसीएल) से ऋण प्राप्त किया था और आईएसएफसीएल को अपने ऋण की समान मासिक किश्तें (ईएमआई'ज) चुकाने में असफल रहे हैं तथा कि उनका ऋण खाता राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक आस्ति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा चुका है। कर्जदारों द्वारा आईएसएफसीएल को अचल सम्पत्तियां बतौर प्रतिमृति उपलब्ध कराई हैं, जिसका विस्तृत विवरण यहां नीचे दिया गया है। ऋण और कर्जदारों द्वारा आईएसएफसीएल को देय बकाया राशियों का विवरण भी यहां नीचे निदर्शित किया गया है। कर्जदार(री) और सर्वसाधारण को एतदद्वारा सचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूत लेनदार, आईएसएफसीएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निम्नलिखित कर्जदार(री) के विरूद्ध वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान के अधीन कार्यवाही आरंभ कर दी है और इस अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। यदि निम्नलिखित कर्जदार उनके नामों के समक्ष निदर्शित बकाया राशि सूचना के 60 (साठ) दिन के भीतर करने में असफल रहते हैं तो अघोहस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभृत लेनदार को प्रदत्त किसी एक अथवा अधिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिसमें प्रतिभृत सम्पत्ति का कब्जा लेना और उसको बिक्री करना शामिल है। सर्वसाधारण को सलाह दी जाती है कि यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करें।

100000	न : उत्तर प्रदेश वे : 05–02–2022		प्राधिकृत अधिकारी डिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड
1	सुशीला, रोहिणी एवं आशीष कुमार मिश्रा निवास स्थान : न्यू फरीदीपुर भूहर, वार्ड हैदरगंज, निकट ग्रीन वे पब्लिक स्कूल, दुबग्गा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ऋण खाता सं.: HL11SHLONS000005013761	1. 12-01-2022 2. रू. 14,94,727.36/- (रूपए चौदह लाख चौरानवे हजार सात सौ सत्ताईस तथा पैसे छत्तीस मात्र) 31-07-2021 तक वकाया + 01-08-2021 से भुगतान की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभार एवं लागत	नंबर 299 रकबा 0.4960 हेक्टेयर, रिथत ग्राम भूहर, परगना लखनऊ, तहसील और जिला
क्र. सं.	कजंदार(री) / गारटर / कानूनी वारिस / कानूनी वारिस / कानूनी प्रतिनिधि का नाम, ऋण खाता संख्या	माग सूचना की तिथि और राशि	प्रतिभूत आस्ति(यो) (अचल सम्पत्तियो) का वर्णन

punjab national bank 🖳 🍱 पंजाब नैशनल बैंक the name you can BANK upon! ...भरोसे का प्रतीक ! Circle Sastra Centre (830700), Zilla Vikas Bhawan, Rohtak, 124 001,

Email: cs8307@pnb.co.in POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas undersigned being the authorized officer of PUNJAB NATIONAL BANK under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 read with Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued demand notices on the dates mentioned against each account calling upon the respective borrowers/guarantors to repay the amount at mentioned against each account within 60 days from the date of notices/date of receipt of said notices.

The borrowers/guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/ guarantor in particular and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule, on the dates mentioned against each account. The borrower's/ guarantors/mortgagors attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

The borrowers/guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Punjab National Bank for the amount and interest thereon, given below:

Date of

Authorized Officer, Punjab National Bank

NPA DATE OUTSTANDING

Name of the Branch

Dated: 04.02.2022

Name of the Account Borrower / Guarantor/	Property Mortgaged	Demand Notice	Possession	as per Demand Notice
Branch Office: Bhiwani Stand, Rohtak M/s Manik Enterprises, through its Proprietor - Mr. Ravinder Kumar, 28, Opposite Ganga Palace, Subhash Road, Rohtak -124001, Mr. Ravinder Kumar, resident of	Rohtak within MC limits, Ro Chander Singh S/o Sh. Ch 17/03/1970 regd. with Sub Re- East: 54'-6", Street 16 feet w	situated at l, at present s htak in the shotu Ram gistrar, Rohta ide, West: 5	Amir Nagar Sanjay Nagar name of Sh. vide sale de ak and same is	charges with w.e.f. 01.08.2021. ed no. 4302 dated Bounded as under:-
330/14, Sanjay Nagar, Rohtak House No. 635/15, Sanjay Nag Subhash Road, Rohtak -12400	gar, Rohtak- 124001, Address			

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED Regd. Office: 11th Floor, Tower A. Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013. CIN No. U67190MH2008PLC187552

Place: Rohtak

DATE OF DEMAND NAME OF OBLIGOR(S)/LEGAL

DEMAND NOTICE

Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").

A Notice is hereby given that the following obligors/legal representatives/legal heirs (BORROWERS) have defaulted in the repayment of principal, along with interest and other charges, obtained from Tata Capital Financial Services Limited (TCFSL). The below mentioned Loan Accounts have been classified as Non-Performing Assets, as per RBI guidelines pursuant to the default in repaying TCFSL's dues. TCFSL, through its Authorised Officer, in pursuance to the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The ACT) has issued below mentioned Statutory Notices under Section 13 (2) of the Act calling upon the Borrowers to discharge the said outstanding amount, along with future interests and costs, within 60 days of the notices, failing which the TCFSL shall exercise all or any of the rights detailed u/s 13(4) of the Act including enforcement of the security interest created by the Borrowers in favour of the TCFSL over the properties described below.

NOTICE u/s 13(2) of the	HEIR(S)/LEGAL		AMOUNT AS PER
Act Loan Accounts	REPRESENTATIVE(S)		DEMAND NOTICE
29.01.2022 & 20827221	 Pardeep Jindal, Rz-21, Upper Ground Floor, Front Side, New Uttam Nagar, Delhi- 110059. Kamlesh, Rz-31-a, Subhash Park Extn., Uttam Nagar, New Delhi- 110059. M/s Pawan & Son's Steel Traders, Through its Proprietor, Ground Floor, Plot Number 66, 75 & 85, New Number 80, Khasra Number 31/16 & 31/25, Matiala Extn. Matiala, Delhi-110059 	N. 14 (7) (0.0% N. 17)	Rs.34,53,253/-

Details Of Secured Assets: Upper Ground Floor, Without Roof/terrace Rights, (front Side Portion Of Built Up Property), Built On Portion Of Plot Numbers 21/1, & 21/3 And 21/2 & 21/4, Pvt. Floor Number A-1, Land Area Admeasuring 100 Square Yards, I.e., 83.62 Sq. Mtrs. And Other Rights, Out Of Total Land Area Measuring 200 Square Yards, Out Of Khasra Number 68 & 69, Village Bindapur, Colony Known As New Uttam Nagar, Abadi Known As Uttam Nagar, New Delhi, More Particularly Described In Sale Deed Dated 08.08.2014, Executed In Favor Of Kamlesh. Bounded As: East: Remaining Portion Of Property, West: Road 30 Ft, North: Plot Number 20, South: Plot Number 20

31.01.2022 & 21792309, TCFLA03590 00010967003	 Nafees Khan Mansoori, B-604 Meenakshi Appartment, Sector-pi, Greater Noida,rampur Jagir, Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh-201306 # 9354121290. Email:mansoorifcs@gmail.com. 2. Mansoori Fitness Center Services, Through Its Prop. K-013, Site No.05, Kasna Indl Area, Greater Noida, Gb Nagar, Up-201308. Also At: B-604 Meenakshi Appartment, Sector-pi, Greater Noida, Rampur Jagir, Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh-201306. 3. Mansoori Body Solid And Sports Private Limited, Through Its Director, B-604 Meenakshi Appts Sector-pi Greater, K-013, Site No.05, Kasna Indl Area, Greater Noida, Gb Nagar, Up-201308. Also At: B-604 Meenakshi 	03-01-2022	83,77,880/
	Kasna Indl Area, Greater Noida, Gb Nagar, Up-201308. Also At: B-604 Meenakshi Appartment, Sector-pi, Greater Noida, Rampur Jagir, Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh-201306. 4. Sajida Begum, B-604 Meenakshi Appartment, Sector-pi, Greater Noida,rampur Jagir, Gautambudh Nagar,uttar Pradesh-201306		

Details Of Secured Assets: Property Bearing No. K-13, Area Measuring 450 Sq Mtrs, Industrial Area, Situated At Surajpur, Site-v, Village Kalma, Pargana, Tehsil & Distt. Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh-201308 More Described In Lease Deed Vide No.6103 Dated

29.01.2022 & 7907704	 M/s Ocean Pathology Center, Through Its Proprietor, Shop No 3, Mohini Market, Khadari Bye Pass Crossing, Mau Road, Agra, Uttar Pradesh- 282002. Mohd Rafik, 53, Naseerababad Colony, Mau Road, Khandari, Dayal Bagh, Agra, Uttar Pradesh- 282005. Nafisa Begam Alias Nafisa Begum, 53, Naseerababad Colony, Mau Road, Khandari, Dayal Bagh, Agra, Uttar Pradesh- 282005. Mohd Safik Khan, 53, Naseerababad Colony, Mau Road, Khandari, Dayal Bagh, Agra, Uttar Pradesh- 282005 	07-01-2022	Rs.2799047/-
			U.

Details Of Secured Assets: Plot On Min Jumla Khasra Number 988, Area Admeasuring 150 Square Yards, Situated At Nasirabad Colony, Mauja Mau Mustakil, Agra, Uttar Pradesh, More Particularly Decribed In Sale Deed Dated 17.05.2003, Executed In Favor Of


31-01-2022 & TCFCE03100 00010295890, 7000548064, 7000480101, 7000375673, 7000419315, 7000375670, 7000370980	1. Coronation Infrastructure Private Limited, Through It's Director, Sh. Ranjit Singh Atwal, R/o E-0, The Mira Corporate Suite, 1 & 2 Ishwar Nagar Shri Niwas Puri New Delhi-110065. 2. M/s Gs Atwal & Company (asansol) (co-borrower) Through Its Partner, Sh. Ranjit Singh Atwal, R/o E-0, The Mira Corporate Suite, 1 & 2 Ishwar Nagar Shri Niwas Puri New Delhi-110065. 3. Sh. Ranjit Singh Atwal (director), S/o Sh. Surinder Singh Atwal, R/o H.noa-18 Niti Bagh, New Delhi-110049. 4. Sh. Surinder Singh Atwal (guarantor), S/o Sh. Gurbachan Singh Atwal, R/o H.noa-18 Niti Bagh, New Delhi-110049. 5. Sh. Karanveer Singh Atwal (director), S/o Sh. Surinder Singh Atwal, R/o H.noa-18 Niti Bagh, New Delhi-110049. Email Id: Atwalcoronation@yahoo.co.in & Satya_cipl_45a@yahoo.in & Ddas@coronationinfrastructure.com	01-01-2021	Rs. 1,92,13,488/ Rs. 88,94,080.5 Rs. 1,25,75,715. Rs. 1,44,750.95 Rs. 3,53,281.04 Rs. 1,30,006.73 Rs. 1,36,663.07
---	--	------------	---

000268, Engine No: 0acg-000268, And Also 2. Make: Atlas Copco (india) Limited, Model: D50, Chassis No: 0tmg15sed0388, Engine No: Otmg15sed0388 And Also 3. Make: Atlas Copco (india) Limited, Model: D60, Chassis No: Tmg15sed0421, Engine No: Tmg15sed0421. And Also 4. Make: Caterpillar India Private Ltd, Model: Cat 770g Off Highway, Chassis No: Ecm00176, Engine No: Txy02109, Registration Certificate: Rj06ea2269, And Also, 5. Make: Caterpillar India Private Ltd, Model: Cat 770g Off Highway, Chassis No: Ecm00180, Engine No: Txy02129, Registration Certificate: Rj06ea2267, And Also 6. Make: Liugong India Pvt Ltd, Model: Clg414, Chassis No: Lgi00414vhg005648, Engine No: 84355883, Registration Certificate: Jh09ag6983. And Also 7, Make: Ingersoll Rand India Ltd. Model: Loader / Dumper, Chassis No: 87300178; Engine No: Txy01943, Registration Certificate: Rj06ea2266

With a view to ensure efficacious service of the abovementioned Demand Notices, we are hereby effecting service of the said Notices vide the public notice. The aforesaid Borrowers are hereby called upon u/s 13(2) of the Act to discharge the above mentioned liabilities within 60 days of this notice failing which the TCFSL will be exercising all or any of the rights u/ Sec 13(4) of the Act. Pertinently, the Borrowers are also put to notice that as per the terms of Section 13(13) of the Act, they shall not transfer by sale, lease or otherwise the aforesaid secured assets.

Place : Delhi Date: 05/02/2022

Sd/- Authorised Officer, TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES



POSSESSION NOTICE

{For Immovable property under Rule 8(1)}

The Authorized Officer of Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, Issued demand notice on the date mentioned against account and stated hereunder calling upon the borrowers/guarantors/ mortagagors to repay the amount, and incidental expenses, costs, charges etc. within sixty days from the date of receipt of said notice. The borrowers/guarantors/mortgagors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/guarantors/mortgagors and the public in general that the undersigned has taken the possession of the properties described herein below in exercise to powers conferred on him/her under section 13(4) to the said act read with the Rule 8 of the said Rules on the date mentioned hereunder. The borrowers attention is invited to the provision of Sub-Section (8) of section - 13 of the Act, read with respect of time available, to redeem the secured assets. The borrowers/guarantors/mortgagors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the properties. Any dealing with the properties will be subject to the charge of Bank of Baroda for the amounts and interest thereon. Details of the Mortgaged Properties of which the possession had been taken is as follows.

Name of the Borrowers/Guarantors	Details of the Mortgaged Properties	Date Demand Notice	Date of posse- ssion	Amt. Due as per demand Notice
Yadav S/o. Mr. Kunwar Pal Singh and Mr. Kunwar Pal S/o. Mr. Munshi Lal and (Guarantor) Mr. Virmal S/o. Mr.	Equitable mortgage DT 15.11.2017 of one Plot of Non Agriculture Land in Gata No. 562/0.279, Area :- 0.245 Hectare Situated in Village- Sheetalpur, Pargana Etah-Sakeet Teh& Distt- Etah. in the Name of Mr. Kunwar Pal Singh S/o. Mr. Mushi Lal	08.20	01.02.2022	Rs. 50,00,613.81 + intt. w.e.f 01.04.2021 other expenses\ Charges
Place : Etah Date : 01	.02.2022 A	uthor	ised (Officer

केनरा बैंक 📣 Canara Bank

Munak Distt.-Karnal, Pin Code-132040 Haryana

Branch Office: Gagsina Branch Vpo Gagsina, Dist. Karnal Haryana

POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)]

The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice, asking respective borrowers and guarantors to deposit the dues in their accounts within 60 days of notice, in the following accounts of the respective Branch on the dates mentioned against them.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and guarantors in particular and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the SARFAESI Act read with rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the dates mentioned against each account,

The borrowers and guarantors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Canara Bank for an amount detailed below.

The borrower's/ Guarantor's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Account Holder, Borrower's/Guarantors	Property Mortgaged and name of the Owner(s)	Notice Notice	Date of Demand Notice Issued	Date of Possession
Borrower: 1, M/S HARMILAP	land/Open Plot measuring 0 K	Rs.	24.09.2021	03.02.2022
TRADING CO. Proprietor Sh.	03 M being 3/137 Share of land	1625799.69/	- Plus Interest The	ereon.
Post Office-Munak Distt Karnal, Pin Code-132040	measuring 06K 17M Comprised 1, Vide Fard Jamabandi for the Situated at Village Munak, Sub Ti Pinki Rani W/0 Sri Sandeep Kuma	e year 2013- he Ballah Dis	14 and Mutatio	on No 7322,
	Rani W/0 Sri Sandeep Kumar Ne or: Sri Sandeep kumar S/0 Sri Har			

Authorised Officer, Canara Bank Date:- 04.02.2022 Place: Gagsina

■IndiaShelter इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड पंजी. कार्यालय : छठा तल, प्लॉट-15, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा-122 002

शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. - 4, 5, 6, 7, प्रथम तल, श्रीराम पैलेस, भोज मार्किट, सेक्टर-27, निकट विनायक अस्पताल अट्टा, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा - 201 301, उत्तर प्रदेश

मांग सूचना वित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदारों ने इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएसएफसीएल) से ऋण प्राप्त किया था और आईएसएफसीएल को अपने ऋण की समान मासिक किश्तें (ईएमआई'ज) चुकाने में असफल रहे हैं तथा कि उनका ऋण खाता राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक आस्ति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा चुका है। कर्जदारों द्वारा आईएसएफसीएल को अचल सम्पत्तियां बतौर प्रतिगृति उपलब्ध कराई हैं, जिसका विस्तृत विवरण यहां नीचे दिया गया है। ऋण और कर्जदारों द्वारा आईएसएफसीएल को देय बकाया राशियों का विवरण भी यहां नीचे निदर्शित किया गया है। कर्जदार(रॉ) और सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृत लेनदार, आईएसएफसीएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निम्नलिखित कर्जदार(रों) के विरूद्ध वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान के अधीन कार्यवाही आरंभ कर दी है और इस अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। यदि निम्नलिखित कर्जदार उनके नामों के समक्ष निदर्शित बकाया राशि सुचना के 60 (साठ) दिन कें मीतर करने में असफल रहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिमृत लेनदार को प्रदत्त किसी एक अथवा अधिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिसमें प्रतिभृत सम्पत्ति का कब्जा लेना और उसको बिक्री करना शामिल है। सर्वसाधारण को सलाह दी जाती है कि यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करें।

क्र. सं.	कर्जदार(री)/गारंटर/कानूनी वारिस/ कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि का नाम, ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि और राशि	प्रतिभूत आस्ति(याँ) (अचल सम्पत्तियाँ) का वर्णन
1	पार्ट—2, भट्टा कालोनी, सेहतपुर, फरीदाबाद— 121 013, हरियाणा	1. 14-07-2021 2. स्व. 11,51,636.40 / - (रूपए ग्यारह लाख इक्यावन हजार छह सौ छत्तीस तथा पैसे घालीस मात्र) 31-07-2021 तक बकाया + 01-08-2021 से मुगतान की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभार एवं लागत	सेक्टर-91, टी + डी - फरीदाबाद, हरियाणा- 121 013
स्थ	न : फरीदाबाद		प्राधिकृत अधिकारी

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड तिथि : 05-02-2022

RIBA TEXTILES LIMITED CIN:L18101DL1989PLC034528

Regd. Office: DD-14, Nehru Enclave, Opp. Kalkaji Post office, New Delhi-110019 E.Mail: company.affairs@ribatextiles.com, Website: www.ribatextiles.com, Tel. No.: 011-26236986 STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31/12/2021

20		Quarte	r Ended	Year to	o date	year ending
SI. No.	Particulars	31.12.2021 Un-audited		31.12.2021 Un-audited	100000000000000000000000000000000000000	31.03.2021 Audited
1	Total income from operations	5547.18	5283.01	15800.82	12433.84	19047.55
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	116.59	61.29	450.02	679.50	751.34
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	116.59	61.29	450.02	679.50	751.34
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	88.23	49.94	361,64	553.79	588.42
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	88.23	49.94	361.64	553.79	588.422
6	Equity Share Capital	965.29	965.29	965.29	965.29	965.29
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of the previous year)		18	19	91	5953.36
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic: Diluted:	0.91	0.52 0.52	3.75 3.75	5.74 5.74	6.10 6.10

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Nine Months ended Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of these Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and on the Company's Website www.ribatextiles.com By order of the Board

> For RIBA TEXTILES LIMITED (Amit Garg) Managing Director DIN:00202171

Form No. INC-26 [Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another

Before the Central Government

Northern Region In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of Prism Auxiliaries Private Limited having its registered office at G-3, 2nd Floor, Maharani Bagh New Delhi 110065, Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 29th January 2022 to enable the company to change its Registered Office from "NCT of Delhi" to "State of Uttar Pradesh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address G-3, 2nd Floor, Maharani Bagh New Delhi 110065

For and on behalf of the Applicant **Prism Auxiliaries Private Limited** Date: 05/02/2022 Harsh Gupta

Place: Delhi

Registered Office: 11th Floor, Shalimar Titanium, Vibhut Khand, Gomti Nagar, Lucknow, UP, India, 226010 Contact Details: secretarial@shalimar.org **FORM NO INC-26** (Incorporation) Rules, 2014]

SHALIMAR GLASS WORKS PRIVATE LIMITED

(Formerly Known as Riverview Clubs Private Limited

CIN: U26100UP2020PTC130479

[Pursuant to Rule 30 of the Companies Before the Central Government, Northern Region In the matter of, Sub-Section (4) of Section 13 o Companies Act, 2013 and clause (a) of sub rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of SHALIMAR GLASS WORKS PRIVATE LIMITED (Formerly Known as Riverview Clubs Private Limited) having its registered office at 11th Floor, Shalimar Titanium, Vibhuti Khand, Gomt Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh, India, 226010

Notice is hereby given to the General Public that the

Company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held or Tuesday, February 01, 2022 to enable the Company to change its registered office from "State of Uttar Pradesh" to "National Capital Territory of Delhi". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 Portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Office of Regiona Director B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan CGO Complex, New Delhi-110003, within Fourteen days of the date of publication of this notice with a copy of the applicant Company at its registered office at the address mentioned below. Address: 11th Floor, Shalimar Titanium, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, UP, India, 226010

For and on Behalf of Board **Shalimar Glass Works Private Limited** Kunal Seth Director DIN-06360228

Date: 03/02/2022 Place: Lucknow Director

Form No. INC-26 [Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR (NORTHERN REGION)

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of the Companies Act, 2013 and Rule 30(5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014, as

In the matter of Realest Builders and Services Private Limited (U70101DL 1981PTC011553) having its Registered Office at 4th Floor, Gopal Dass Bhawan, 28, Barakhamba Road, New Delhi-110001. Applicant/ Petitioner

NOTICE

Notice is hereby given to the General Public that the Applicant Company proposes to make application to the Central Government, power delegated to Regional Director under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on 31st January, 2022 to enable the Company to change its registered office from "National Capital Territory of Delhi" to "the State of Gujarat". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the

Registered Office of the Company may deliver either on MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an Affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs having its office at B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within 14 (Fourteen) days of the date of publication of this Notice with a copy to the Applicant Company at its Registered Office at the address mentioned above. For Realest Builders and Services Private Limited

Pratik Garg Company Secretary

Membership No. A39735 16/22, G.F., Spring Field Colony,

Place: New Delhi Sector-31-32, Faridabad-121003, Haryana Date: 04.02.2022

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI

4TH FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARILAMENT STREET, NEW DELHI-110001 OA/393/2021

Karur Vysya Bank applicant VERSUS Mr Shaurya Saxena & OTRS. Defendants

MR. SHAURYA SAXENA, S/o Sh. Rajiv Saxena

R/o Flat No. 701, Brothers cooperative group housing society limited, plot no. GH-86,

sector Golf course Raod, sikanderpur, ghosi farrukhagar, Gurgaon, Haryana. 2. M/S JSS Buildcon Private Limited A-202, old no. 202, 1st floor, main road chander Vihar, mandawali, East Delhi-110092 Whereas the above named applicant has instituted a case for recovery of Rs. 621,23,87.66

(rupees sixty two lakh twelve thousand three thousand eighty seven and paise sixty

six only) against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before I.d Registrar on 14.03.2022 at 10:30 A.M. (for futher details kindly visit DRT website www.etribunal.gov.in Phone Number:

011-23748473). Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence. Due to ongoing Pandemic Situation, all the matters will be taken up thorugh Video

Conferencing and for that purpose:-All the Advocates / Litigants shall download the Cisco Webex" application/Software;

ii) "Meeting ID" and "Password" for the next date of hearing qua cases to be taken by "Registrar/Recovery Officer-I / and Recovery Officer - II shall be available one day prior

to the next date at DRT Official Portal i.e. "drt.gov.in" under the Public Notice Head. (iii) In any exigency qua that, the Advocates/Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 011-23748473. Given under my hand and seal of the Tribunal on this 2 February, 2022.

By order of this Tribunal

Dhiren S Shah

FORM A **PUBLIC ANNOUNCEMENT** (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

Shreyasi Infra Private Limited

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SHREYASI INFRA PRIVATE LIMITED RELEVANT PARTICULARS

200	and the second of the second o	Sincyasi minor i triano mininos
2.	Date of incorporation of corporate debtor	29/11/2013
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC -Mumbai
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U45400MH2013PTC250578
6.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Shop No. 1, Shiv Heights Prithviraj Nagar, Beltarodi Road, Nagpur 440034
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	25/01/2022 (CTC of Order received on 03/02/2022)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	24/07/2022
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Dhiren S Shah IBBI/IPA-001/IP-P00220/2017-18/10419
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	B 102 Bhagirathi Niwas, Near Natraj Studio, Sir M V Road, Andheri (East), Mumbai-400069 Email-das@dsshah.in
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	B 102 Bhagirathi Niwas, Near Natraj Studio, Sir M V Road, Andheri (East), Mumbai-400069 Email- ip1@dsshah.in
11.	Last date for submission of claims	17/02/2022
1000		

Name of corporate debtor

interim resolution professional Names of Insolvency Professionals 1. Hetal Kothari identified to act as Authorised Representative of creditors in a 2. Raj Patni

clause (b) of sub-section (6A) of

section 21, ascertained by the IBBI/IPA--001/IP-P-01610/2019-2020/12500 class (Three names for each class) | IBBI/IPA-001/IP-P-01971/2020-2021/13016

12. Classes of creditors, if any, under Name the class(es): Home buyers (if any)

3. Saniay Shah IBBI/IPA-001/IP-P-01240/2020-2021/13256 14. (a) Relevant Forms and Weblink: ibbi.gov.in/home/downloads (b) Details of authorized As per entry no.10 above representatives are available at

Private Limited on 25/01/2022 (CTC of Order received on 03/02/2022). The creditors of Shreyasi Infra Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 17/02/2022 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal Mumbai bench has ordered

the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Shreyasi Infra

other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class Home Buyer in Form

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Name and Signature of Interim Resolution Professional

Mumbai 05/02/2022

financialexp.epap







Place: Panipat

Date: 04.02.2022









के संबंध में सुचना का विज्ञापन {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसरण में)

सचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में रिजस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050 को एक आवेदन पंद्रह दिनों के बाद, लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्तावित है, की "इन्नोवा एएम टैक एलएलपी (एलएलपीआईएन: एएएफ-4630)" एक एलएलपी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्वाय XXI के भाग 1 के अधीन शेवरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकत किया जाए।

. कंपनी के मूल उद्देशय इस प्रकार हैं: क) आउटसोर्सिंग सेवाओं और अन्य संबद्ध गतिविधियों के व्यवसाय में संलग्न होना। दूरसंचार अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता. परामर्श और स्थापना सेवाएं प्रदान करना ।

प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद ज्ञापन की प्रतिलिपि का निरीक्षण 204, विकासदीप बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट सैंटर, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092 स्थित कार्यालय में किया जा सकता है।

सूचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति की इस आवेदन पर आपत्ति है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस सुचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार, केंद्रीय फंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050, पर भेज दें तथा इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकत कार्यालय में भी भेज दें।

इन्नोवा एएम टैक एलएलपी राजेश घई (नामित साझेदार) DPIN:00696943 तिथि : 05.02.2022 2. अनु घई (नामित साझेदार) स्थान : नई दिल्ली DPIN: 01094285

आवेदको के नाम

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, एक राज्य से दूसरे राज्य

में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा(4) और कंपनी(निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के

टेक्नों हार्डवेयर इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड जिसका रजिस्टीकृत कार्यालय प्लाट नंबर 11, सेक्टर-24, फरीदाबाद -121001 स्थित है, के मामलें में,

उपनिवम(5) के खंड(ए) के मामले में

आम जनता को ये सूचना दी जाती है कि कंपनी, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिस मे कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेत् विशेष प्रस्ताव पारित किया गया है, ये विशेष प्रस्ताव तारीख 30 जनवरी, 2022 को आयोजित असाधारण साधारण अधिवेशन में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "हरियाणा राज्य" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानान्तरित करने के लिए

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो यह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसका विरोध का कारण उल्लेखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक. बी-2 विंग, द्वितीय तस, पर्यावरण भवन, सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते है या सुपूर्व कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर भी

प्लाट नंबर 11, सेक्टर-24, फरीदाबाद -121001

टेक्नो हार्डवेयर इंटरप्राइनेन प्राईवेट लिमिटेड दिनांक:- 05/02/2022 नरेन्द्र कुमार (निदेशक) स्थान:- फरीदाबाद

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, एक राज्य से दूसरे राज्य में रथानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा(4) और कंपनी(निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम(5) के खंड(ए) के मामले में

हरी होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय जी-3 सेकंड फ्लोर,

महारानी बाग, नई दिल्ली-110065 रिधत है, के मामले मे आम जनता को ये सूचना दी जाती है कि कंपनी, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 वे अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिस मे

कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेत्

विशेष प्रस्ताव पारित किया गया है, ये विशेष प्रस्ताव

तारीख 29 जनवरी, 2022 को आयोजित असाधारण

साधारण अधिवेशन में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानान्तरित करने के लिए पारित किया गया है । कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसका विरोध का कारण उल्लेखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते

को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर भी जी-3 सेकंड फ्लोर, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065 कृते एवं हिते हरी होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड स्थान:- दिल्ली

मनाषा गुप्ता (।नदशक)

हैं या सुपूर्व कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 (कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, एक राज्य से दूसरे राज्य

दिनाक:- 05/02/2022

में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्रीय सरकार के समझ प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उपधारा(4)

उपनियम(5) के खंड(ए) के मामले में वसंघरा प्लांटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय जी-3 सेकंड फ्लोर

और कंपनी(निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के

महारानी बाग, नई दिल्ली-110065 रिधत है, के मामले में. ..याचिकाकत आम जनता को ये सचना दी जाती है कि कंपनी, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 व अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिस मे कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेर

विशेष प्रस्ताव पारित किया गया है. ये विशेष प्रस्ताव तारीख 29 जनवरी, 2022 को आयोजित असत्वारः साधारण अधिवेशन में राजिस्ट्रीकृत कार्यालय "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "उत्तर प्रदेश राज्य" मे स्थानान्तरित करने के लिए पारित किया गया है । कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित क प्रकार और उसका विरोध का कारण उल्लेखित हो के साथ

अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या संपर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर मी

मुल:

स्थान : पानीपत

तिथि : 04-02-2022

जी-3 सेकंड पलोर, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065 वसंधरा प्लांटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड दिनांक:- 05/02/2022 नरेन्द्र कुमार (निदेशक)

www.readwhere.com

Company Pention/Application/Filing Reference No. 0710102/00173/2022 Notice of petition

A petition under section 58(3) of the Companies Act, 2013 for issuance of a direction fo registration of shares was presented against Sabo Hema Automotive Pvt Ltd by Aprav Space Solutions LLP on the 7.01.2022, and the said petition is likely to be fixed for hearing before the bench of National Company Law Tribunal, Delhi on any day in the week commencing 7.02.2022 or any day thereafter. Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the petitioner's advocate, notice of his intention signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the petitioner's advocate not later than two days before the date fixed for the hearing of the petition/ application/ reference. Where he seeks to oppose the petition/application/reference, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition/application/reference will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same. Dated: 04 February 2022

Abhinav Mukerji D-85 (LGF) Panchsheel Enclave, New Delhi-110017

आईओ सिस्टम लिमिटेड पंजी. कार्यालय : ऊपरी बेस्मेन्ट, स्मार्ट भारत

मॉल, प्लॉट नं. आई-2, सेक्टर-25ए, गौतम बुध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 CIN:L65921UP1987PLC008764 Webiste: www.iosystem.in भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन

द्मित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के संदर्भ में एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 14 फरवरी 2021 को 2.00 बजे अप. में कान्फ्रेंस रूम, ऊपरी बेरमेन्ट स्मार्ट भारत मॉल, प्लॉट नं. आई-2 सेक्टर-25ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 आयोजित की जाएगी जिसमें 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे। यह सूचना कंपनी की वेबसाईट

www.iosystem.in तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट https://www.bseindia.com पर आईओ सिस्टम लि. के लिए

हस्ता. दिनकर शर्मा कम्पनी सचिव एवं स्थानः नोएडा अनुपालन अधिकारी तिथि: 4.2.2022 एम.नं.: एफ 7383

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समावार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विद्यापन

केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा(4) और कंपनी(निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम(5) के खंड(ए) के मामले में

ज्योति उद्योग प्राईवेट लिमिटेड जेसका रजिस्टीकत कार्यालय **जी–3 सेकंड फ्लोर**

महारानी बाग, नई दिल्ली-110065 रिथत है, के मामले मे आम जनता को ये सुचना दी जाती है कि कंपनी, केन्द्रीर रिकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 व प्रधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिस हंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हें। वेशेष प्रस्ताव पारित किया गया है, ये विशेष प्रस्ता **तारीख 29 जनवरी, 2022** को आयोजित असाधार प्राधारण अधिवेशन में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **"दिल्ली** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "उत्तर प्रदेश राज्य"

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर** एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपध पत्र जिसमें उनके हित व कार और उसका विरोध का कारण उल्लेखित हो के सा प्रपनी आपति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, बी-2** विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स, **नई दिल्ली-110003** पते पर पंजीकृत ढाक द्वारा भेज सकते या सुपूर्व कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर भी

Place: New Delhi

Date: 04.02.2022

थानान्तरित करने के लिए पारित किया गया है ।

जी-3 सेकंड फ्लोर, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065 कृते एवं हित ज्योति उद्योग प्राईवेट लिमिटेड

दिनांक:- 05/02/2022 मोहित सारोगी (निदेशक) प्ररूप संख्या आईएनसी-26 [कंपनी (नियमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में

में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्रीय सरकार के समझ प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा(4)

कंपनी का पंजीकत कार्यालय, एक राज्य से दूसरे राज्य

और कंपनी(नियमन) निवम, 2014 के नियम 30 के उपनियम(5) के खंड(ए) के मामले में

सीता टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड जेसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **जी–3 सेकंड फ्लोर**, **ह्यरानी बाग, नई दिल्ली—110065** रिथत है, के मामले मे

गम जनता को ये सूचना दी जाती है कि: कंपनी, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 व अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेत् विशेष प्रस्ताव पारित किया गया है ये विशेष प्रस्ताव तारीख 29 जनवरी, 2022 को आयोजित असाधारण साधारण अधिवेशन में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "उत्तर प्रदेश राज्य" मे धानान्तरित करने के लिए पारित किया गया है । कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित ध्यानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तों वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइस कर** एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शमध मंत्र जिसमें उनके हित क प्रकार और उसका विरोध का कारण उल्लेखित हो के सार

अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स, **नई दिल्ली—110003** पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते है या सुपूर्व कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपन हो उनके निभ्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर १

जी-3 सेकंड फ्लोर, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065 सीता टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड स्थान- दिल्ली

दिमांक:- 05/02/2022 हर्ष गुप्ता (निदेशक) JINDAL CAPITAL LIMITED CIN: L65910DL1994PLC059720 Regd. Office: 201, Aggarwal Plaza, Sector-9, Rohini, Delhi- 110085 Email: info@jindalcapital.in Phone: 011-46027146

NOTICE Pursuant to Regulation 29(1)(a) of SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice is hereby given that meeting of Board of Directors will be held on Saturday, 12th February, 2022 to consider and take on record Un-audited financial results for the quarter ended on 31st December, 2021.

For Jindal Capital Limited Pawan Kumar Jindal Place: Delhi Managing Director Date: 03.02.2022 DIN: 00524690

AMS Polymers Limited (Formerly, Sai Moh Auto Links Limited) Regd. Off.: C-582, Saraswati Vihar, Pitampura, Delhi- 110034 Phone: 011-27017987 | Fax: 011-27017987 | Website : www.amspolymers.com, CIN :L34300DL1985PLC020510 | Email : polymersams@gmail.com EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2021 Except EPS For the Quarter Months Quarter **Particulars** Ended Ended 31.12.2021 | 31.12.2021 31.12.2020 1591.78 943.80 3592.52 Total income from operations (net) 2 Net Profit/ (Loss) for the period (before tax 2.83 8.89 13.96 exceptional and/ or Extraordinary items) 3 Net Profit/ (Loss) for the period before tax (afte 8.89 2.83 13.96 exceptional and/ or Extraordinary items) 4 Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after 2.13 7.51 13,48 exceptional and/ or Extraordinary items) Total comprehensive income for the perior (Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)) 3302500.00 3302500.00 3302500.00 6 Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year B Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operation) 0.41 0.06 0.23 0.06 0.23 0.41

SEBI (Listing and Other Disclosure Requirments) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Quarterly Financial Results is available on the BSE's website, i.e., www.bseindia com and on the Company's website www.amspolymers.com. The above Unaudited Financial esults are prepared in accordance with the Companies (Ind AS) Rules, 2015. For and on behalf of Board Directors of **AMS Polymers Limited**

he above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter

ind Nine Months ended December 31, 2021, filed with the BSE under Regulation 33 of the

Place: New Delhi Date: 04.02.2022 Managing Director, DIN: 01381489 TIGER LOGISTICS (INDIA) LIMITED

Regd Office: D-174, GF, Okhla Industrial Area, Phase-1 New Delhi 110020 Tel. No. 011-47351111, Fax: 011-26229671 Website: www.tigerlogistics.in, Email ID: csvishal@tigerlogistics.in Completion of disbursement/distribution of 1" Interim Dividend of Tiger Logistics (India) Limited for financial year 2021-22.

CIN: L74899DL2000PLC105817

We here by informing our shareholders that your company has disbursed and completed the legal requirement till date for the purpose of distribution of interim dividend (1" Interim dividend of Rs. 1/- per equity share (on the face value of Rs. 10/- each) for the financial year 2021-22) declared by the Board of Directors of the Company at the Board Meeting held on November 2210, 2021.

S.No.	Particulars	Date
1	Date of Board Meeting was (declared dividend, Record date fixed and decided to open Bank Account with Kotak Bank)	22.11.2021
2	Dividend Account with Kotak Bank opened and transferred the amount of dividend in it.	25.11.2021
3	Record Date was on	02.12.2021
4	Completion of payment of interim dividend to shareholders was	21.12.2021
5	Transferring unpaid/unclaimed dividend to Unpaid Dividend Account	29.12.2021
6	Re-dispatched DD/Dividend warrants to those shareholders whose dividend payment got rejected due to any reason.	03.01.2022

kindly mail at csvishal@tigerlogistics.in. For Tiger Logistics India Limited

> Harpreet Singh Malhotra Managing Director DIN: 00147977

प्रपत्र ए सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

डेसीन प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ संबंधित विवरण कार्पोरेट देनदार का नाम डेसीन प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि 15 दिसंबर 1970 प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट रजिस्टार ऑफ कम्पनीज-नई दिल्ली देनदार निगमित / पंजीकृत है कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान U74899DL1970PTC005474 संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा | पंजीकृत कार्यालयः देसीन हाउस, ग्रेंटर कैलाश — II, नई दिल्ली — 110048 प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता

कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध 28 जनवरी, 2022 (आदेश 2 फरवरी 2022 अक्षमता आरंभन तिथि को प्राप्त हुआ) ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के 27 जुलाई 2022 (दिवाला समाधान प्रक्रिया समापन की पूर्वानुमानित तिथि शुरू होने की तारीख से 180वां दिन) अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में अखिल आहुजा

कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल पंजी. सं: IBBI/IPA-001/IP-P-02072/2020-2021/13213 का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और | डी–65, ग्राउंड फ्लोर, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–110024 ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है ईमेलःcaakhilahuja@gmail.com

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, इमैक्युलेट रेजोल्युशन प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड, युनिट नंबर 112, पहली मंजिल, टॉवर—ए, रपेजएज कमर्शियल पत्राचार हेत् प्रयुक्त, पता और ई—मेल कोंम्प्लेक्स, सैक्टर —47, सोहना रोड, गुड़गांव — 122018 इंमेल : cirp.desein@gmail.com दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 16 फरवरी 2022 अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वाराधारा २१ की लागू नही

4 उप-धारा (६क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेत चिहिनत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणीं के लिए तीन नाम)

(क) संबंधित प्रपन्न उपलब्ध है (क) वेबलिक: https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर (ख) कॉलम नं 10 में उल्लिखत पते पर ादद्वारा सचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ—IV ने **दिनां क 28 जनवरी 2022**,

। **डेसीन प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है । **डेसीन प्राइबेट लिमिटेड** के लेनदारों से एतदद्वारा अपने दावों का प्रमाण **16 फरवरी 2022** को अथवा इसकें पूर्व में प्रतरिम समाधान प्रोफेशनल को ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है । वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा । अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्ररत्त कर सकते हैं । किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार (लागू नहीं) जैसा कि प्रविष्टि सं 12 के समक्ष सूर्यीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से

पनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि को प्रपत्र सीए में [कुछ नहीं] निदर्शित करेंगा । दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी। अखिल आहुजा अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, डेसीन प्राइवेट लिमिटेड दिनांक : 04.02.2022 पंजीकरण सं::IBBI/IPA-001/IP-P-02072/2020-2021/13213 स्थान : नई दिल्ली

रीबा टेक्सटाइल्स लिमिटेड सीआईएन : L18101DL1989PLC034528

पंजी. कार्यालय: डीडी-14, नेहरू एन्क्लेव, कालकाजी पोस्ट आफिस के सामने, नई दिल्ली-110019 ई-मेल : company.affairs@ribatextiles.com, वेबसाइट : www.ribatextiles.com, फोन : 011-26236986

31—12—2021 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु पृथक्कृत वित्तीय परिणामों का विवरण राशि (रू. लाख में तिमाही समाप्त वर्षाद्यतन अवधि वर्ष समाप्त विवरण 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.03.2021 अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित प्रलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित लेखापरीक्षित परिचालन से कुल आय 5547.18 5283.0 15800.82 12433.84 19047.55 अवधि हेत् शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा 116.59 679.50 751.34 61.29 450.02 असाधारण मदों से पूर्व) अवधि हेत् शुद्ध लाभ/(हानि), कर से पूर्व 116.59 679.50 751.34 61.29 450.02 (अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के बाद) अवधि हेत् शुद्ध लाभ / (हानि), कर पश्चात 88.23 49.94 361.64 553.79 588.42 (अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के बाद) अवधि हेत् कुल समावेशी आय (जिसमें अवधि हेत् लाग / (हानि) 88.23 49.94 553.79 588.422 361.64 (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित इक्विटी शेयर पंजी 965.29 965.29 965.29 965.29 965.29 संचेय (तुलनपत्र में दर्शितानुसार पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर) 5953.36 प्रति शेयर अर्जन (रू. 10 / -प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचालनों हेत्)

तनुकृत नोट: उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज वेबसाइट्स www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.ribatextiles.com पर उपलब्ध है। बोर्ड के आदेश द्वारा वास्ते

0.91

0.91

0.52

0.52

3.75

3.75

रीवा टेक्सटाइल्स लिमिटेड इस्ता./-(अमित गर्ग) प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 00202171

5.74

5.74

6.10

6.10

एवन मकेन्टाईल लि.

CIN: L17118UP1985PLC026582 पंजी. कार्यालयः ऊपरी बेस्मेन्ट, स्मार्ट भारत मॉल, प्लॉट नं. आई-2, सेक्टर-25ए, गौतमबुध नगर, नोएडा, उ.प्र.-201301 Website: http://www.avonmercantile.in/

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन

दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2013 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47(1) के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 14 फरवरी, 2022 को 4,30 बजे अप, में कान्फ्रैंस रूम (ऊपरी बेरमेन्ट), स्मार्ट भारत माल, आई-2, सेक्टर-25 ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा स्वीकृत होने पर कम्पनी का अनंकेक्षित परिणाम कंपनी की वेबसाईट अर्थात http://www.avonmercantile.in/ एवं स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात https://www.bseindia.com/ https://www.cse-india.com उपलब्ध है।

एवन मर्केन्टाईल लि. के लिए हस्ता./ दिशा सोनी कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी तिथि: 4.2.2022 स्थानः नोएडा एम. नं. ए 42944

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 [कंपनी [निगमन] नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण मे कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, एक राज्य से दूसरे राज में स्थानातरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा(4) और कंपनी(नियमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम(5) के खंड(ए) के मामले में

प्रिज्म औक्सिलअरिज प्राईवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय जी-3 सेकंड फ्लोर, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065 रिध्यत है, के मामले में,

Anand Kumar

आम जनता को ये सुबना दी जाती है कि कंपनी, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हे विशेष प्रस्ताव पारित किया गया है ये विशेष प्रस्ताव तारीख 29 जनवरी, 2022 को आयोजित असाधारण साधारण अधिवंशन में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "उत्तर प्रदेश राज्य" ने स्थानान्तरित करने के लिए पारित किया गया है ।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण. से यदि किसी व्यक्ति का डित प्रभावित होता ई तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित व प्रकार और उसका विरोध का कारण उल्लेखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, वी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत ढाक द्वारा भेज सकते हैं या लुपूर्व कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर भी जी-3 सेकंड फ्लोर, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065

प्रिज्म औक्सिलअरिज प्राईवेट लिमिटेड स्थान:- दिल्ली दिनांक:- 05/02/2022 हर्ष गुप्ता (निदेशक)

कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा(4)

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

और कंपनी(निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम(5) के खंड(ए) के मामले में योगेश्वर डेवलपर्मेट प्राईवेट लिमिटेड

जेसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **जी-3 सेकंड फ्लोर** महारानी बाग, नई दिल्ली-110065 स्थित है, के मामले में, ...ঘাবিকাকর্না

आम जनता को ये सुचना दी जाती है कि कंपनी, केन्द्रीर सरकार के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेत विशेष प्रस्ताव पारित किया गया है, ये विशेष प्रस्ताव **तारीख २९ जनवरी, २०२२** को आचोजित असाघारण साधारण अधिवेशन में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "दिस्सी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "उत्तर प्रदेश राज्य" स्थानान्तरित करने के लिए पारित किया गया है ।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित

स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो यह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रस्तप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसका विरोध का कारण उल्लेखित हो के साथ अपनी आपति क्षेत्रीय निदेशक को इस सुवना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के मीतर क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपूर्व कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर्ते पर भी

जी-3 सेकंड फ्लोर, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065

योगेश्वर डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड स्थान:- दिल्ली दिनांक:- 06/02/2022 मनीका गुप्ता (निदेशक)

AKG EXIM Import • Export

एकेजी एक्जिम लिमिटेड CIN No. L00063DL2005PLC139045 पंजीकृत कार्यालयः एच.वी. ट्विन टावर, 07 मंजिल, मैक्स अस्पताल भवन, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

कॉर्पोरेट कार्यालय - यूनिट नंबर 237, दूसरी मंजिल, टावर-बी, स्पेजेज, सेक्टर-47, गुरुग्राम-122018,

ईमेल आईडी:-info@akg-global.com | दूरभाष: +91-124-4267873 | फैक्स: +91-124-4004503 वेबसाइट: www.akg-global.com

31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के अनंकेक्षित समेकित परिणामों का सार

विवरण महीने 3 महीने वर्ष 3 महीने 30.09.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 (देखें टिप्पणी 2) 5,418.68 3,525.45 3,247.57 11,287.46 10,669.04 अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट मदों तथा कर से पूर्व 62.72 82.52 155.42 63.16 177.63 63.16 62.72 82.52 155.42 177.63 130.99 46.76 46.44 अवधि के लिये कल व्यापक आय 46.76 46.44 62.36 115.26 130.99 प्रदत्त इक्विटी शेयर पंजी 1,059.22 1,059.22 1059.22 1059.22 1059.22 आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) मूल (वार्षिकीकृत नहीं) 0.44 0.44 0.44 0.44 0.59 1.24 1. उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल 31 दिसम्बर, 202

एक्सचैंज की वेबसाईट (www.nseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.akg-global.com) पर उपलब्ध है। 2. उक्त अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों की ऑडिट किमटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 3 फरवरी, 2022 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये हैं। कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों ने उसकी समीक्षा की है।

को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक

3. जहां भी जरूरी हुआ, वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिये पूर्व अवधि के आंकड़े पुन-वर्गीकृत किये गये हैं। कम्पनी ने अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के मुख्य नम्बर्स इस प्रकार है:

विवरण	समाप्त 3 महीने 31.12.2021	समाप्त पूर्व 3 महीने 30.09.2021	समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने 31.12.2020	समाप्त चालू वर्ष 31.12.2021	समाप्त पूर्व वर्ष 31.12.2020
	(देखें टिप्पणी 2)	अनंकेक्षित	(देखें टिप्पणी 2)	अनंकेक्षित	अंकेक्षित
प्रचालनों से कुल राजस्व	3,521.12	2,299.15	2,271.46	7,359.58	7,887.49
अविध के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट मदों एवं कर से पूर्व)	46.18	42.94	41.37	108.38	145.09
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट मदों के बाद)	46.18	42.94	41,37	108.38	145.09
कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)	34.20	31.80	31.91	80.45	106.92
अवधि हेतु कुल व्यापक आय	34.20	31.80	31.91	80.45	106.92

एकेजी एक्जिम लि. के लिये महिमा गोयल (प्रबंध निदेशक) DIN: 02205003

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 03.02.2022

SI.

CIN: L15311DL1993PLC052624

Regd. Office: 149, 1" Floor, Kilokari, Ring Road, Ashram, New Delhi-110014 Corporate Office: 1401-1411, 14th Floor, Logix City Center, Sector-32, Noida-201301, Uttar Pradesh Tel.: 0120-6013232, Email: dfm@dfmfoods.com, Website: www.dfmfoods.com

> STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2021

(₹ in lakhs) Quarter Ended Nine Months Ended Quarter Ended

No.	Particulars	31" Dec., 2021	31" Dec., 2021	31" Dec., 2020
	10000900900	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1.	Total income from operations	15533	41290	13538
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(668)	(1300)	1278
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	(668)	(1300)	1278
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(507)	(993)	948
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(496)	(962)	938
6.	Paid-up Equity Share Capital, Equity Shares of ₹2/- each	1005	1005	1005
7.	Other equity as shown in the Audited Balance Sheet		16802	
8.	Earnings Per Equity Share of face value of ₹2/- each (for continuing and discontinued operations) (not annualised)	(Tribble State)		5257947
	Basic	(1.00)	(1.98)	1.89
	Diluted	(1.00)	(1.97)	1.89

 These above unaudited financial results for the guarter and nine months ended 31" December, 2021 were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 4" February, 2022. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited review of the aforesaid financial results.

These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles as laid down in the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") prescribed undersection 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time.

Due to the COVID-19 Global health pandemic, there were several lockdowns/restrictions In various states/cities/towns during the FY 2020-21. While these restrictions were being gradually eased down, the Second wave of COVID-19 hit the country towards the end of the FY 2020-21 which again triggered Impositions or fresh restrictions/lockdowns. The Company's operations and financial results for the guarter and nine months ended December 31, 2021, have been temporarily impacted by the outbreak of Covid-19 pandemic. The Company has considered the possible effects that may result from the Covid-19 pandemic on the financial results and in this regard, the Company has made detailed assessments of its liquidity position for next one year and of the recoverability and carrying value of its assets comprising inventories and other current assets as at the reporting date and on the basis of evaluation, based on the current estimates, the Company has concluded that there is no material adjustments required in the financial

results. Given the uncertainties associated with nature,

condition and duration of COVID-19, the impact assessment on the Company's financial results will be continuously made and provided for as required: The Indian Parliament has approved the Code on Social Security, 2020 which would impact the contributions by the Company towards Provident Fund and Gratuity. The Ministry of

Labour and Employment has released draft rules for the Code

on Social Security, 2020 on November 13, 2020, and has invited suggestions from stakeholders. The Company will assess the impact and its valuation and will give appropriate impact in its financial statements in the period in which, the Code becomes effective and the related rules to determine the financial impact The above unaudited financial results have been prepared in accordance with the amended Schedule III and accordingly

previous period/year's figures been regrouped/reclassified as necessary to compare with the current period results. Based on the guiding principles given in Ind AS 108 on "Operating segments" the Company's business activity falls within a single operating segment, namely Snack Foods. Accordingly, the disclosure requirements of Ind AS 108 are not applicable.

The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the guarter and nine months ended 31" December, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full Format of the Unaudited Financial Results for the guarter and nine months ended 31st December, 2021 are available on the BSE website at www.bseindia.com, NSE website at www.nseindia.com and on the Company's website at www.dfmfoods.com.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD LAGAN SHASTRI

MANAGING DIRECTOR & CEO



Place: Noida

Dated: 4" February, 2022

Utkarsh Small Finance Bank

Aapki Ummeed Ka Khaata

Condensed Interim Unaudited Financial Results

(₹ in Lakhs) Period ended 31 December 2021 31 December 2020 31 March 2021 Unaudited Unaudited Total income from operations 1,31,278.64 1,16,555.21 1,58,098.73 Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items) 2,398.91 13,320.14 15,143.66 3. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) 2,398.91 13,320.14 15,143.66 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items) 1,303.42 9,813.91 11,181.51 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period 1,303,42 9,813.91 11,181.51 (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 6. Paid up Equity Share Capital 89,550.37 84,833.39 75,927.22 Reserves (Excluding Revaluation Reserve) 52,001.87 8. Securities Premium Account 28,519.53 3,777.78 18,575.45 9. Net worth* 1,40,380,90 1.01,877.39 1,25,651,51 10. Outstanding Debt 2.85,685.02 2,09,029.80 2.60,782.52 11. Outstanding Redeemable Preference Shares 1.36 2.56 1.91 12. Debt Equity Ratio** Earnings per share (of Rs. 10 each) - Basic (not annualised for nine months) 0.15 1.29 1.46 - Diluted (not annualised for nine months) 0.15 1.29 1.46 Total Debt to Total Assets Ratio 21.48% 16.28% 25.94% 15. Capital Redemption Reserve 16. Debenture Redemption Reserve

*as per RBI quidelines. **Debt (excluding deposits) / Share Capital plus Reserves.

Place: Mumbai

Date: 03 February 2022

As per Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations 2015, ratios which are not relevant are not disclosed.

1. The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the websites of BSE Limited and the Bank (https://www.utkarsh.bank). 2. For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to BSE Limited and can also be accessed on the Bank's URL (https://www.utkarsh.bank).

for and on behalf of the Board of Directors of **Utkarsh Small Finance Bank Limited** CIN: U65992UP2016PLC082804

> **Govind Singh** Managing Director & CEO

DIN: 02470880 Registered office address: S-24/1-2, First Floor, Mahavir Nagar, Orderly Bazar, Varanasi, Uttar Pradesh, India, 221002

www.utkarsh.bank | Toll Free: 1800-180-6878 / 1800-123-9878 | 0 0 0